

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

8 जून 2021

प्रेस विज्ञप्ति

कोविड -19: जामिया में दूसरा टीकाकरण शिविर सफलतापूर्वक आयोजित

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर की अपील पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के स्टाफ सदस्यों (स्थायी, संविदात्मक, आउटसोर्सिंग और सेवानिवृत्त) की एक बड़ी संख्या एवं उनके पति / पत्नी ने दूसरे कोविड-19 वेक्सीनेशन कैम्प में खुद को टीका लगवाया। 'कोविड-19 वेक्सीनेशन कैम्प 1-5 जून, 2021 तक आयोजित किया गया। जिसमें कोविशिल्ड की पहली डोज दी गई।

जामिया बिरादरी से अपनी अपील में कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों से परिवार सहित टीकाकरण करवाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया था। उन्होंने देश को कोरोना वायरस संकट से मुक्त करने के लिए इसे एक व्यक्तिगत और सामूहिक मिशन के रूप में लेने की अपील की।

पांच दिवसीय शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय के डॉ. एम. ए. अंसारी स्वास्थ्य केंद्र में जिला स्वास्थ्य सेवा, एनसीटी दिल्ली सरकार के सहयोग से किया गया था।

डॉ. इरशाद एम नकवी, सीएमओ, डॉ. एमए अंसारी स्वास्थ्य केंद्र ने कहा कि टीके के किसी भी दुष्प्रभाव को देखने के लिए उन शॉट्स को लगभग 30 मिनट तक निगरानी में रखा गया और शुरु है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। उन्हें दर्द/बुखार महसूस होने पर पेरसिटामोल की गोलियां लेने और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह भी दी गई।

प्रथम कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन 12 से 13 अप्रैल, 2021 तक विश्वविद्यालय के डॉ. एम. ए. अंसारी स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया था।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया